



THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE

Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो चीफ

19 दिसंबर 2020

ICSI ने कंपनी सचिवों के 48 वें राष्ट्रीय अधिवेशन में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर को मानद सीएस डिग्री प्रदान की



इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने इंदौर में कंपनी सचिवों के 48 वें राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर को मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष, लोक सभा श्री ओम बिरला की वर्चुअल उपस्थिति में मानद सीएस डिग्री से सम्मानित किया।

ICSI ने भी श्री अनुराग सिंह ठाकुर के हाथों सिंगापुर में अपने चौथे ओवरसीज केंद्र का उद्घाटन किया।

दर्शकों को वर्चुअल संबोधित करते हुए, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा "ICSI ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में नैतिक और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी सचिव कंपनियों के कानूनी प्रशासन के लिए और समाज को विकास के लाभ दिलाने के लिए उन्होंने शुभकामनाये दी।

साथ ही उन्होंने कहा की कंपनियों के संचालन में CS का दायित्व है कि कंपनियों का संचालन विधि सम्मत हो, उनकी वृद्धि का लाभ सभी तक पहुंचे। इसमें ICSI का महत्वपूर्ण रोल है। 'सत्यं वद, धर्मं चर' के आदर्श पर चलते हुए गवर्नेंस को मजबूत करने में CS मनोयोग से काम करते हैं। CS गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस डेवलप

करें जिसका पालन सभी में हो। विकेन्द्रीकरण के तहत पंचायतों और निगम संगठनों को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। ICSI द्वारा विकसित कोड इनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने से प्रसन्न श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, "इस प्रसिद्ध संस्थान की सदस्यता प्राप्त करना और सदस्यता सूची में शामिल होना मेरा परम सम्मान है जिसमें स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने भी प्राप्त किया था। वह मेरे लिए एक विचारक थे, कई मायनों में एक दूरदर्शी थे और एक ऐसी आवाज थे जिसको आवाज़ को पार्टी लाइनों में सराहा गया था।

श्री ठाकुर ने कहा की जब विश्व वर्ष 2020 को याद करेगा, तो वे इसे महामारी वर्ष के रूप में याद करेंगे, लेकिन इंडिया इंक इसे ऐतिहासिक सुधारों, तकनीकी परिवर्तनों और सरकार की नीति में एक वर्ष के अवसर के रूप में वापस देखेगा।

अधिवेशन का अंतिम तकनीकी सत्र: आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संसदीय अनुशासन पर था जिसमें प्रख्यात सांसदों की उपस्थिति रही, जिन्होंने इस बात की वकालत की कि गवर्नेंस से अनुशासनात्मक चीजों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जहां राज्य द्वारा समाज और समाज द्वारा राज्य अनुशासित रहे।

48 वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन स्वामी विष्णुपराचार्य जी द्वारा एक विशेष प्रेरक संबोधन के साथ हुआ। दुनिया भर से 4000 से अधिक सदस्यों द्वारा इसमें भाग लिया गया।

इस अवसर पर ICSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएस आशीष गर्ग ने कहा "कंपनी सचिवों का राष्ट्रीय अधिवेशन एक वार्षिक आयोजन है जो हमारी सचिवों के रूप में हमें दी गई हमारी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के पुनर्मिलन को चिह्नित करता है। यह सम्मेलन न केवल संस्थान के कैलेंडर में एक पहचान बन गया है, बल्कि राष्ट्र भर के पेशेवरों द्वारा भी देखा जा रहा है।"

ICSI के उपाध्यक्ष सीएस नागेंद्र डी राव, केंद्रीय परिषद् सदस्य और 48 वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष सीएस बी नरसिम्हन, कार्यक्रम समन्वयक एवं पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय परिषद् के अध्यक्ष सीएस राहुल पी सहस्रबुद्धे, प्रोग्राम फैसिलिटेटर इंदौर चैंप्टर के चेयरमैन सीएस अमरीश कुमार चौरसिया एवं भोपाल चैंप्टर के चेयरमैन सीएस प्रणय पटेल एवं ICSI के सचिव सीएस आशीष मोहन भी इसमें उपस्थित रहे।

धन्यवाद,

प्रीती कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार एवं अंतरराष्ट्रीय मामले का विभाग

The Institute of Company Secretaries of India

ICSI House, 22 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi -110 003

Ph: 011-45341022

email: preeti.banerjee@icsi.edu